



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 768 राँची, शुक्रवार,

4 अक्टूबर, 2019 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

4 अक्टूबर, 2019

संख्या-02/परि.आ.-22/2019-944--

झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2019

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू होने की तिथि:-
 - (i) यह नियमावली झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2019 कहलाएगी।
 - (ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
 - (iii) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

2. झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 के नियम-46 के उप नियम-3 में निम्न परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाता है:-

“परन्तु यह कि इस उप नियम के प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के क्षेत्रांतर्गत निबंधित डीलर द्वारा भी वाहनों का अस्थायी निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा।”

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

प्रवीण कुमार टोप्पो

सचिव

परिवहन विभाग ।
